



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2005 (अग्रहायण 5, 1927)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2005 (AGRAHAYANA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. जी.एफ. 627/2005-पीएमए--इस कार्यालय की दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना के क्रम में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार श्री जावेद उस्मानी, संयुक्त सचिव को प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित सभी मामलों के बारे में अपील अधिकारी नामित किया जाता है।

पी. के. राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 नवम्बर 2005

सं. ए-19011/05/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री के. शंकर नारायणन, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 70) को 01 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. चादव, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 नवम्बर 2005

सं. आरएस./12(V)/2005/58-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में श्री मुंजुल कुमार पांडे को 6.10.2005 से कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार के पद पर स्थायी कर दिया है।

वंजुला जी. राजन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 02 नवम्बर 2005

सं. ए-38012/3/2005-प्रशा.1--श्री बालेश्वर राय, भा.प्र.से. (एजीएमयू : 70), सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये।

सुनील मिश्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. एफ.6(1822)/2001-प्रशासन-I--अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कोष (आई. एम. एफ.) के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विदेश सेवा शर्तों पर दुशानबे में स्थित तजाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सलाहकार का पदभार ग्रहण करने हेतु, आई.ई.एस. के एन.एफ. एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक, श्री अनिल बिसेन को दिनांक 20.10.2005 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. ए-11018/ 2/96-प्रशा.-II--योजना आयोग की दिनांक 29 मार्च, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री बी. गणेश राम, अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) की आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) योजना आयोग के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.01.2005 से आगे 6 माह के लिए या नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उनको आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न ही उनके द्वारा आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के रूप में तदर्थ आधार पर प्रदान की गई कोई सेवा न तो आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के ग्रेड में वरिष्ठता और न अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु गिनी जाएगी।

आर. के. परमार, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. ए-43014/1/2005-प्रशा.-II--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12016/8/2004-आईएसएस, दिनांक 20.10.2005 के अनुसरण में तथा योजना आयोग की अधिसूचना संख्या ए-43014/4/2000-प्रशासन-II, दिनांक 17 अगस्त, 2004 के क्रम में योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर श्री जे. एस. सहरावत (आई एस एस के ग्रेड-IV के पूरक (फीडर) पदधारी) की तदर्थ नियुक्ति के कार्यकाल को 31.12.2004 से आगे 02.05.2005 तक बढ़ाया जाता है।

2. श्री सहरावत का दिनांक 02.05.2005 को देहान्त हो गया है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2005

सं. के.11017/13/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अनंग कुमार पटनायक को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें 8 अक्टूबर, 2005 को या उससे पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. के.13020/2/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जय पाल सिंह को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. के.11019/1/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री दिनेन्द्र विश्वास को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उस तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं, जब न्यायविद् श्री विनोद कुमार राय, जिनका स्थानान्तरण सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ेंगे।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2005

सं. के.11019/1/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री फखरुद्दीन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उस तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अनंग कुमार पटनायक, जिनका स्थानान्तरण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो गया है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ेंगे।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2005

सं. के.13012/4/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान, (ii) श्री सुधीर अग्रवाल, (iii) श्री विनोद प्रसाद, (iv) कुमारी भारती सपरू और (v) श्री श्रीनारायण शुक्ल को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2005

सं. के.11017/8/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1क) के साथ पठित अनुच्छेद 222, जम्मू एवं कश्मीर में लागू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री सच्चिदानन्द झा का स्थानान्तरण राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं और उन्हें 18 अक्टूबर, 2005 को या इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 अक्टूबर 2005

सं. के.11017/12/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री मार्कण्डेय काटजू को, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें 20 अक्टूबर, 2005 को या उससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.11017/10/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1क) के साथ पठित अनुच्छेद 222, जम्मू एवं

कश्मीर में लागू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री विजय कुमार झांजी का स्थानान्तरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर करते हैं और उन्हें 20 अक्टूबर, 2005 को या इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.11017/9/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1क) के साथ पठित अनुच्छेद 222, जम्मू एवं कश्मीर में लागू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री बशीर अहमद खान का स्थानान्तरण जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर करते हैं और उन्हें 19 अक्टूबर, 2005 को या इससे पूर्व जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. के.13012/3/2005-यू.एस.II(ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अलोक कुमार सिंह और (ii) श्री धर्मवीर शर्मा को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से जब से वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.13012/3/2005-यू.एस.II(i)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अल्ला रहम, (ii) श्री बरकत अली जैदी, (iii) श्री शिव शंकर और (iv) श्रीमती सरोज बाला को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से जब से वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.13011/2/2005-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री योगेश कुमार सबरवाल को दिनांक 1 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से भारत का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. के.13011/3/2005-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री दलबीर चन्द भंडारी को उस तारीख, जब वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. के.13014/6/2005-यू.एस.1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री अजीत प्रकाश शाहा को उस तारीख से, जब बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री दलबीर चन्द भंडारी, जिनकी नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो गई है, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य-भार छोड़ेंगे, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. 14016/23/2004-यू.टी.एस.-11--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीप तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा की प्रविष्टि ग्रेड में

6,500-200-10,5000/- रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म तिथि
(सर्वश्री)			
1.	स्वतंत्र कुमार	डी-1/492	04.05.1949
2.	राजेश्वर प्रसाद गौतम	डी-1/252	12.01.1949
3.	हर्षवर्धन	डी-1/494	06.10.1947
4.	यशवन्त सिंह	डी-1/498	05.04.1947

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं. I-18012/6/2005-आई.पी.एस.1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	अशोक कुमार शर्मा	08.12.1998
2.	राजिन्दर मोहन शर्मा	22.10.2003

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. I-18012/6/2000-आई.पी.एस.1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त एजीएमयू संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री आर. एल. मीणा को दिनांक 12.3.1999 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 2005

सं. ए-19013/2/2005-प्र.सु.(प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री शाही संजय कुमार, आई.आर.एस. (आई.टी. : 94) को प्रशासनिक सुधार और लोक

शिकायत विभाग के अंतर्गत गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार अयोग में उप सचिव के पद पर दिनांक 3 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से प्रभावी चार वर्षों के लिये या आगे के आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. टी. भुटिया, अवर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा (जम्मू-कश्मीर : 87) को दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी.के. वेलकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. ए-12026/5/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री अतनु चक्रवर्ती, आई. ए.एस. (गुजरात : 1985) को 9 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से केन्द्र में उनकी 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की बकाया अवधि, जो 13.01.2007 तक है, अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव (का.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. 62/2005 (ए-19011/4/2001-स्था.)--राष्ट्रपति, श्रीमती सरिता मित्तल, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की समूह-क अधिकारी को, 1996 के लिए चयन सूची के संबंध में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2005-सी.एस. 1 (i) में निहित आदेशों के अनुसार सचिवालय सेवा (सी एस एस) के चयन ग्रेड के लिए 1996 की चयन सूची (एस एल) में उन्हें शामिल किये जाने के फलस्वरूप, 1.7.1996 से और अगले आदेशों तक वस्त्र मंत्रालय में नियमित आधार पर सी एस एस (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए उनकी संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रम के अनुसार होगी।

चन्द्र भान, निदेशक

दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. 21/2005 (ए-12022/1/96-स्था.) (भाग-1)--राष्ट्रपति, श्री जे. एन. सिंह, आई ए एस (गुजरात : 83) को 24 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वस्त्र मंत्रालय के अधीन वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में वस्त्र आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र भान, निदेशक

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. 3/18/2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के आदेश संख्या 21/24/2005-सी.एस.-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्रीमती नीता गुप्ता को खान मंत्रालय में 28 अक्टूबर, 2005 अपराह्न से तदर्थ आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और यह ग्रेड उन्हें इस अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवरण सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। सरकार को बिना कारण बताए तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार है।

टी. एस. भाटिया, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. ए-12023/03/99-प्रशा. 1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/22/2005-सी. एस.-1 के अनुसरण में तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एल. डी. सी. ई. 2003 के आधार पर परीक्षा कोट में वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के एक निजी सचिव, श्री परमजीत चड्ढा को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 04.10.2005 से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री परमजीत चड्ढा की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कैलाश चन्द्र तथा अन्य

द्वारा भारत का संघ के खिलाफ दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय पर आधारित होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-32011/03/2003-प्रशा. 1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/22/2005-सी. एस.-1 के अनुसरण में तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एल. डी. सी. ई. 2003 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के एक नियमित वैयक्तिक सहायक, श्री एम.ए. प्रभाकरन को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 04.10.2005 से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री प्रभाकरन की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कैलाश चन्द्र तथा अन्य द्वारा भारत का संघ के खिलाफ दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय पर आधारित होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-12023/1/03-प्रशा. 1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/22/2005-सी. एस.1 के अनुसरण में तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एल. डी. सी. ई. 2003 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बायो टेक्नोलॉजी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 04.10.2005 से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्री एस. एल. बैरवा (अनुभाग अधिकारी (तदर्थ))

2. श्री अरुण कुमार

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में इन सहायकों की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कैलाश चन्द्र तथा अन्य द्वारा भारत का संघ के खिलाफ दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय पर आधारित होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2005

सं. ए-12023/1/03-प्रशा. 1 (ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक श्रीमती मधु सूर्या की निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 16.10.2005 (अपराह) से समाप्त करते हैं उन्हें अपने वैयक्तिक सहायक के नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. ए-19014/06/2005-प्रशा. 1 (ए)--इस विभाग की दिनांक 5 अप्रैल, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्री सतीश शेषराव सोनवाने को 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक 'बी' के रूप में 31.03.2005 (पूर्वाह) से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. ए-01/04/04-प्रशा 1 (ए)--इस विभाग की दिनांक 20 अप्रैल, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के सहायक निदेशक, श्री ओम प्रकाश गाबा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक "सी" के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 29.10.2005 से 28.04.2006 तक अथवा वैज्ञानिक "सी" की रिक्त की उपलब्धता तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं। उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में निहित अनुदेशों के अनुसार होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

सं. ए-12025/01/05-प्रशा. 1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 अगस्त तथा 8 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2005-सी. एस. II के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वर्ष 2002 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) के ग्रेड 'ए' तथा 'बी' (विलयित) में उन्हें सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, श्री अनिल कुमार कथूरिया, जो इस समय तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में निजी सचिव ग्रेड 'ए' तथा 'बी' (विलयित) के रूप में विज्ञान और

प्रौद्योगिकी विभाग में 17 अक्टूबर, 2005 से अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

सं. ए-12025/01/05-प्रशा. 1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 अगस्त तथा 8 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2005-सी. एस. II के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वर्ष 2003 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) के ग्रेड 'ए' तथा 'बी' (विलयित) में उन्हें सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, श्रीमती नवदीप कालिया, को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में निजी सचिव ग्रेड 'ए' तथा 'बी' (विलयित) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 17 अक्टूबर, 2005 से अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 7 नवम्बर 2005

सं. एस.एम./01/049/2002--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में समूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप-अधीक्षक सर्वेक्षण के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री स्वामी जे. निकोसे 12.09.2005 (पूर्वाह)
बी. के. रायचंदानी, अवर सचिव

सं. एस.एम./01/042/2001--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में समूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप-अधीक्षक सर्वेक्षण के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव 31.08.2005 (पूर्वाह)
बी. के. रायचंदानी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. 7-19/2005-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री बी. के. पंत, प्रदर्शनी अधिकारी, विस्तार निदेशालय को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

रानी तलारेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 02 नवम्बर 2005

सं.38012/2/2005-स्था. I--कृषि एवं सहकारिता विभाग के अनुभाग अधिकारी, श्रीमती निर्मल कांता को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

सं.38012/4/2005-स्था. I--कृषि एवं सहकारिता विभाग के निजी सचिव, श्री सुधाकर भारद्वाज को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर, 2005

सं.19011/418/2005-स्था. V/स्था II--राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित उपनिदेशक (सहकारिता) श्री पी. सम्मत की निदेशक (सहकारिता) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 11.10.2005 से छः माह की अवधि तक या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त अवधि पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर 2005

सं. ए-19011/10/2005-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री अरविंद कौशल, आईडीएस (1979), को 18,400-22,400/- रुपए के वेतनमान में 8 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से इस पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 09 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/1/95-स्थापना II--राष्ट्रपति, श्री राकेश निगम को दिनांक 13.10.2005 (पूर्वाह) से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इस मंत्रालय में के.स.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

सं. ए-12021/4/2005-स्थापना II--राष्ट्रपति, श्रीमती मंजू को दिनांक 28.10.2005 (अपराह) से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इस मंत्रालय में के.स.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/95-स्थापना II--राष्ट्रपति, श्री सी. एच. रामचन्द्रन को दिनांक 13.10.2005 (पूर्वाह) से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इस मंत्रालय में के.स.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. एनआईसी/पीएफ/84/2005-कार्मिक व स्था. I--श्री ओम प्रकाश गोयल, वैज्ञानिक 'ई' (कर्मचारी कोड सं. 84), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अपराह से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्था. I)

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. 2(2)/2004-पीए (टीए)--महानिदेशक (एसटीक्यूसी) ने श्री दिनेश आर. रामो, सहायक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, बंगलौर नामक एक अधीनस्थ कार्यालय में दिनांक 2.5.2005 के पूर्वाह से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड - II नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

सं. 2(2)/2004-पीए (टीए)--महानिदेशक (एसटीक्यूसी) ने श्री यू. एस. अन्तिल, अनुभाग अधिकारी (लेखा), इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास एवं सुविधा केन्द्र, अम्बाला कैन्ट (हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि., चण्डीगढ़ की एक परियोजना) को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, गोवा नामक एक अधीनस्थ कार्यालय में दिनांक 12.5.2005 के पूर्वाह से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि

के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड -II नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

दिनांक 07 नवम्बर, 2005

सं. 2(3)/2003-पीए (टीए)--राष्ट्रपति जी ने एसटीक्यूसी निदेशालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों क्रमशः ईआरटीएल (पश्चिम), मुम्बई तथा ईटीडीसी, गुवाहाटी में तैनात निम्नलिखित ग्रेड-II प्रशासनिक अधिकारियों को दिनांक 04.10.2005 के पूर्वाह से 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड -I नियुक्त किया है।

1. श्री ए. बी. मुलातकर

2. श्री गौतम बिश्रवास

वे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख अर्थात् दिनांक 04.10.2005 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. 3-3/2005-प्रशा.--वर्ष 2003 की चयन सूची के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) की चयन सूची में इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री अनिल कुमार सिंह का नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निजी सचिव के बतौर 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर 24.10.2005 (आपराह) से और आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

सं. 39-1/94-प्रशा.--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी, निजी सचिव (तदर्थ) को 24.10.2005 (अपराह) से सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड सी के उनके मूल पद वेतनमान 5500-175-9,000/- रुपए में प्रत्यावर्तित करते हैं।

जी. पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर 2005

सं. ई (जीपी) 99/1/54--राष्ट्रपति महोदय, पश्चिम रेलवे के भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी श्री सतराम सिंह को 28.7.2000 से भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा (आई आर एस ई) के

कनिष्ठ वेतनमान में वर्ष 1998-99 के पैल में, मूल रूप से नियुक्ति करने हेतु सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

एम. के. अग्रवाल, सचिव (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. ई (जीपी) 2001/1/49-- राष्ट्रपति जी, मध्य रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी श्री आर. वी. सिंह को 14.1.2005 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई आर एस ई) के कनिष्ठ वेतनमान में वर्ष 2002-2003 के पैल में, मूल रूप से नियुक्ति किए जाने को अनुमोदन प्रदान करते हैं।

2. श्री आर. वी. सिंह केवल 01.09.2005 से ही कनिष्ठ वेतनमान में आर्थिक लाभ के पात्र होंगे।

एम. के. अग्रवाल, सचिव (रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. ए-12026/4/2001-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार प्रुथी, मुख्य प्रारूपकार (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय) की तदर्थ नियुक्ति को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 20.10.2005 से छः महीने, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं। अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 134/2004 दिनांक 21.10.2004 (ए-12026/4/2001-स्था.) में दर्शायी गई हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 03 नवम्बर 2005

सं. ए-12028/3/04-स्था.--राष्ट्रपति, संयुक्त सचिव, श्री सुशील कुमार, भा. प्र. से. (उ. प्र. : 82) की पोत-परिवहन-विभाग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पदावधि 07.11.2005 से 06.02.2006 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 09 नवम्बर 2005

सं. ए-12026/4/2001-स्था.--राष्ट्रपति, श्री जे. सी. तलवार, मुख्य प्रारूपकार (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय) की तदर्थ नियुक्ति को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 12.11.2005 से छः महीने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो सहर्ष बढ़ाते हैं। अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 137/2003 दिनांक 13.11.2003 (ए-12026/4/2001-स्था.) में दर्शायी गई हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 07 नवम्बर 2005

सं. ए-12026/1/2003-एम ए--श्री जी. एस. साहनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश-71), नौवहन-महानिदेशक और पदेन अपर सचिव को राष्ट्रपति, 04 अक्टूबर, 2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतनमान में नौवहन-महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नानक चन्द, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2005

सं. 10/2005 फा. सं. 20/31/2005--प्रशासन,--सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 (1) के अनुसरण में, श्रीमती सुषमा सिंह, अपर सचिव (जल संसाधन) को जल संसाधन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. 12/2005 फा. सं.-20/31/2005-प्रशा. I--सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 22) की धारा (1) के अनुसरण में नीचे दिए अनुसार जल संसाधन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में विभिन्न स्कंधों में निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क. सं.	नाम व पदनाम	स्कंद का नाम
	(सर्वश्री)	
1.	एच.एस. नेहरिया, निदेशक (पीपी)	नीति एवं परियोजना (पीपी)
2.	कमलेश शुक्ला, निदेशक (एचपी)	ब्रह्मपुत्र एवं बराक (बी एण्ड बी)
3.	एस.एस. ओहरी, उप सचिव (गंगा)	गंगा
4.	इंद्रजीत सिंह, उप सचिव (कैड एवं ज.प्र.)	कमान विकास क्षेत्र एवं जल प्रबंध (कैड एवं ज.प्र.)
5.	पी.के. बेरवा, लेखा नियंत्रक	वित्त
6.	के. बोहरा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बे.प्र.)	परियोजना (पीआर)-बेसिन प्रबंध प्रभाग
7.	रमेश कुमार, निदेशक (भूजल)	भूजल
8.	विजय कुमार (सिधु)	सिधु
9.	पी. पद्मनाभन, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पी.आर.)	परियोजना (पीआर)-परियोजना प्रभाग

इस मंत्रालय के दिनांक 27.09.2005 की अधिसूचना सं.-8/2005/(फाइल सं.-20/31/2005 प्रशा.) के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

सतपाल, निदेशक (प्रशासन)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. 1/51/2004-एम.यू.सी.--राष्ट्रपति, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के सहायक निर्माण प्रबंधक (बाह्य प्रचार) श्री पी.एन. उपाध्याय को दिनांक 9.9.2005 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निर्माण प्रबंधक (बाह्य प्रचार) (समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं)

2. वे दिनांक 9.9.2005 अर्थात् जिस तारीख से उन्होंने पद को संभाला है, से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

परिवीक्षा की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

एस.बी. कृष्णन, अवर सचिव

सं 1/83/2004-एम.यू.सी.:--राष्ट्रपति, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) में सहायक मीडिया कार्यपालक श्री बी पी मीणा को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मीडिया कार्यपालक (समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर दिनांक 13.9.2005 को पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत करते हैं।

एस.बी. कृष्णन, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 9th November 2005

No. G.F. 627/2005-PMA.—In continuation of this Office Notification dated 30.9.2005 and in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Jawed Usmani, Joint Secretary is designated as Appellate Officer in respect of all matters pertaining to Prime Minister's Office.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th November 2005

No. RS/12(v)/2005/58-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to confirm Shri Manjul Kumar Pandey in the post of Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat with effect from 06.10.2005.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 1st November 2005

No. A-19011/05/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri K. Shankar Narayanan, IAS(MP : 70) as Secretary (Coordination and Public Grievances), Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 1st November, 2005.

R. S. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 2nd November 2005

No. A-38012/3/2005-Ad.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Baleshwar Rai, IAS (AGMU : 70), Secretary (C&PG), Cabinet Secretariat retired from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2005.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 20th October 2005

No. F.6(1822)/2001-Admn.I.—Shri Anil Bisen, an NFSG officer of IES and Director, Planning Commission is relieved of his duties w.e.f. 20.10.2005 (A.N.) to join as Public Debt Management Adviser to the Ministry of Finance in Dushanbe, Tajikistan, under the technical assistance programme of International Monetary Fund (IMF), on foreign service terms.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 18th October 2005

No. A. 11018/2/96-Admn.II.—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 29th March, 2005, the term of ad-hoc appointment of Shri B. Ganesh Ram, Research Assistant (Sociology) as Economic Officer (Sociology), Planning Commission is hereby extended for a

further period of six months w.e.f. 01.10.2005 or until the regular incumbent becomes available or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment to the grade of Economic Officer (Sociology) nor would any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Economic Officer (Sociology) count for the purposes of seniority in the grade of Economic Officer (Sociology) nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 31st October 2005

No. A-43014/1/2005-Admn.II.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation O.M. No. 12016/8/2004-ISS dated 20.10.2005 and incontinuation of Planning Commission Notification No.A.43014/4/2000-Admn.II dated 17th August, 2004, the term of ad-hoc appointment of Shri J. S. Sehrawat (feeder post holder to Grade IV of ISS) as Research Officer in the Planning Commission is extended beyond 31.12.2004 and upto 2.5.2005.

2. Shri Sehrawat has expired on 2.5.2005.

R. K. PARMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 26th September 2005

No. K. 11017/13/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Ananga Kumar Patnaik, Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, as the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court on or before 8th October, 2005.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 28th September 2005

No. K. 13020/2/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Jai Pal Singh, to be an Additional Judge of the Jammu & Kashmir High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 29th September 2005

No. K. 11019/1/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the

President is pleased to appoint Shri Justice Dinendra Biswas, Seniormost Judge of the Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Binod Kumar Roy relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Gauhati High Court consequent upon his transfer as Chief Justice of the Sikkim High Court.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 3rd October 2005

No. K. 11019/1/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Fakhruddin, Seniormost Judge of the Chhattisgarh High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Ananga Kumar Patnaik relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court consequent upon his transfer as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 4th October 2005

No. K. 13012/4/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Satyendra Singh Chauhan (ii) Shri Sudhir Agarwal (iii) Shri Vinod Prasad (iv) Kumari Bharati Sapru and (v) Shri Shri Narayan Shukla, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 5th October 2005

No. K. 11017/8/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222, read with Article 222 (1A) of the Constitution of India in its application to Jammu and Kashmir, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Sachchidanand Jha, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, as the Chief Justice of the Rajasthan High Court and to direct him to assume charge of his office in the Rajasthan High Court on or before 18th October, 2005.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 6th October 2005

No. K. 11017/12/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Markandeya Katju,

Chief Justice, Madras High Court, as the Chief Justice of the Delhi High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Delhi High Court on or before 20th October, 2005.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11017/10/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222, read with Article 222 (1A) of the Constitution of India in its application to Jammu & Kashmir, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Vijay Kumar Jhanji, Judge of the High Court of Jammu and Kashmir, as the Judge of the Himachal Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Himachal Pradesh High Court on or before 20th October, 2005.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11017/9/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 read with Article 222 (1A) of the Constitution of India in its application to the Jammu & Kashmir, the President, after consultation with the Governor of Jammu & Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Bashir Ahmed Khan, Judge of the Delhi High Court, as a Judge of the Jammu & Kashmir High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jammu & Kashmir High Court on or before 19th October, 2005.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 18th October 2005

No. K. 13012/3/2005-US.II(ii).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Alok Kumar Singh and (ii) Shri Dharam Veer Sharma, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13012/3/2005-US.II(i).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Allah Raham (ii) Shri Barkat Ali Zaidi (iii) Shri Shiv Shankar and (iv) Smt. Saroj Bala to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13011/2/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of

India, the President is pleased to appoint Shri Justice Yogesh Kumar Sabharwal, Judge of the Supreme Court, to be the Chief Justice of India with effect from November 01, 2005 (forenoon).

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 27th October 2005

No. K. 13011/3/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Dalveer Chand Bhandari, Chief Justice of the Bombay High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 28th October 2005

No. K. 13014/6/2005-US.I.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ajit Prakash Shah, Seniormost Judge of the Bombay High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Dalveer Chand Bhandari relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Bombay High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th November 2005

No. 14016/23/2004-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Swatantar Kumar	D-I/490	04.05.1949
2.	Rajeshwar Prasad Gautam	D-I/252	12.01.1949
3.	Harshwardhan	D-I/494	06.10.1947
4.	Yaswant Singh	D-I/498	05.04.1947

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2005

No. I-18012/6/2005-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Himachal Pradesh with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar Sharma	08.12.1998
2.	Rajinder Mohan Sharma	22.10.2003

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 11th November 2005

No. I-18012/6/2000-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, Shri R. L. Meena of Indian Police Service allocated to the Joint Cadre of AGMU with effect from 12.03.1999.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

(SECOND ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION)

New Delhi-110001, the 08th November 2005

No. A-19013/2/2005-AR (Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Shahi Sanjay Kumar, IRS (IT : 94) as Deputy Secretary in the second Administrative Reforms Commission under the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, with effect from the forenoon of 03 November, 2005 for a period of four years or until further orders whichever is earlier.

P. T. BHUTIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th November 2005

No. A. 32013/1/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Pradip Kumar Tripathi, IAS (JK : 87), as Director in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 6th October, 2005 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 9th November 2005

No. A. 12026/5/2005-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Atanu Chakraborty, IAS (GJ : 1985) as Joint Secretary (Pers.) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of the 9th November, 2005 for the balance period of his Central deputation tenure of five years, i.e. upto 13.1.2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th October 2005

No. 62/2005 (A-19011/4/2001-Estt.).—Consequent upon her inclusion in the Select List (SL) of 1996 for Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/10/2005-CS I(i), dated 15th September, 2005 relating to the select list for 1996, the President is pleased to appoint Smt. Sarita Mittal, Group-A officer of Central Secretariat Service of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis in the Ministry of Textiles w.e.f. 1.7.1996 and until further orders.

2. Her inter-se seniority in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in her respective Select List irrespective of her actual date of appointment to the Selection Grade.

CHANDER BHAN, Director

The 31st October 2005

No. 21/2005 (A-12022/1/96-Estt) (Part-I).—The President is pleased to appoint Shri J. N. Singh, IAS (GJ : 83), as Textile Commissioner in the Office of the Textile Commissioner, Mumbai under the Ministry of Textiles in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a tenure of five years with effect from the forenoon of 24th October, 2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

CHANDER BHAN, Director

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 31st October 2005

No. 3/18/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated 14th October, 2005, the President is pleased to appoint Smt. Neeta Gupta as Under Secretary [Central Secretariat Service (CSS)] on ad-hoc basis in Ministry of Mines with effect from the afternoon of 28th October, 2005.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely

or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I. The Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment at any point of time without assigning any reason therefor.

T. S. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 10th October, 2005

No. A.12023/03/99-Admn. I(A).—In pursuance of DP&T's O.M. No.5/22/2005- CS.I dated the September 14, 2005 and on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Examination Quota on the basis LDCE, 2003 held by UPSC, the President is pleased to appoint Shri Paramjeet Chadha, Private Secretary of the Cadre of Ministry of Science & Technology as Section Officer in the Scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology (Department of Scientific & Industrial Research) w.e.f. 04.10.2005 and until further orders.

2. The appointment of Shri Paramjeet Chadha to the Grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs. Union of India & Others before the Hon'ble Delhi High Court.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A.12023/03/99-Admn.I(A).— In pursuance of DP&T's O.M. No.5/22/2005- CS.I dated the September 14, 2005 and on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Examination Quota on the basis LDCE, 2003 held by UPSC, the President is pleased to appoint Shri M.A. Prabhakaran, a regular Personal Assistant of the Cadre of Ministry of Science & Technology as Section Officer in the Scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology) w.e.f. 04.10.2005 and until further orders.

2. The appointment of Shri Prabhakaran to the Grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs. Union of India & Others before the Hon'ble Delhi High Court.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A.12023/03/99-Admn.I(A).— In pursuance of DP&T's O.M. No.5/22/2005- CS.I dated the September 14, 2005 and on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Examination Quota on the basis LDCE, 2003 held by UPSC, the President is pleased to appoint the following regular Assistant of the Cadre of Ministry of Science & Technology as Section Officer in the Scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the CSS Cadre of

Ministry of Science & Technology (Department of Bio & Technology) w.e.f. 04.10.2005 and until further orders.

1. Shri S. L. Bairwa, [Section Officer (Ad-hoc)]
2. Shri Arun Kumar.

The appointment of these Assistants to the Grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs. Union of India & Others before the Hon'ble Delhi High Court.

J. K. TRIKHA, Under Secy

The 25th October 2005

No. A.12023/1/03-Admn.I(A).— The President is pleased to discontinue the term of ad-hoc appointment of Mrs. Madhu Surya, Personal Assistant as Private Secretary in the Ministry of Science and Technology with effect from 16.10.2005 (AN). She is reverted to her regular post of Personal Assistant.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 27th October 2005.

No. A. 19014/06/2005-Admn.I(A).— In continuation of this Department's notification of even number dated 5th April, 2005, the President is pleased to appoint Shri Satish Sheshrao Sonwane as Scientist 'B' on temporary basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs.8,000-275-13,500/- w.e.f. 31.03.2005 (FN) and until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 28th October 2005.

No. A. 01/04/04-Admn.I (A).—In continuation of this department's notification of even number dated 20th April, 2005, the President is pleased to extend the term of deputation of Shri Om Prakash Gaba, Asstt. Director, Forest Survey of India, Dehradun as Scientist 'C' in the Department of Science and Technology in the Scale of pay of Rs.10,000-325-15,200/- from 29.10.2005 to 28.04.2006 or the availability of vacancy in the post of Scientist 'C' or until further orders whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's OM No.2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

New Delhi -110016, the 19th October 2005

No. A-12025/01/05 - Admn. I(A).— Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2002 (Seniority Quota) of Grade 'A' & 'B' (Merged) of the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology in terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/10/2005 - CS.II dated

16th August & 8th September, 05, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Kathuria, Grade 'C' Steno of the CSSS Cadre of this Ministry and presently working as Private Secretary on ad-hoc basis, as Private Secretary [Grade 'A' & 'B' (Merged)] in the scale of pay of Rs.6,500-200-10,500/- in the Department of Science & Technology w.e.f. 17.10.2005 and until further orders.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

No. A-12025/01/05 - Admn. I(A).— Consequent upon her inclusion in the Select List for the year 2003 (Seniority Quota) of Grade 'A' & 'B' (Merged) of the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology in terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/10/2005 - CS.II dated 16th August & 8th September, 05, the President is pleased to appoint Smt. Navdeep Kalia, Grade 'C' Steno of the CSSS Cadre of this Ministry, as Private Secretary [Grade 'A' & 'B' (Merged)] in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Science & Technology w.e.f. 17.10.2005 and until further orders.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

New Delhi-110016, the 7th November 2005

No. SM/01/049/2002.—The President is pleased to appoint the following Officer as Deputy Superintending Surveyor Group 'A' Service in the pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders:—

1. Shri Swamy J. Jikose 12-09-2005 (F/N).

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

No. SM/01/042/2001.—The President is pleased to appoint the following Officer as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders:—

1. Shri Rajiv Kumar Srivastava 31-08-2005 (F/N).

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRI. & COOPERATION)

New Delhi, the 18th October 2005

No. 7-19/2005-Extn.—The President is pleased to permit Shri B. K. Pant, Exhibition Officer in the Directorate of Extension to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September, 2005.

RANI TALREJA, Under Secy.

New Delhi, the 2nd November 2005

No. 38012/2/2005-E.I.—Smt. Nirmal Kanta, Section Officer in Department of Agriculture & Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2005 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38012/4/2005-E.I.—Shri Sudhakar Bhardwaja, Private Secretary in Department of Agriculture & Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October 2005 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 8th November 2005

No. 19011/4/18/2005-E. V/ E.II.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri P. Sampath, a regular Deputy Director (Cooperation), in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Director (Cooperation) for a period of six months with effect from 11.10.2005 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Director (Cooperation).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 9th November 2005

No. A.19011/10/2005-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Arvind Kaushal, IDAS(1979), as Joint Secretary to the Government of India in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the scale of pay of Rs.18,400-22,400/- with effect from the afternoon of 8th November 2005 for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever events takes place earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th November 2005

No. A-32013/1/95-Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Nigam as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre in this Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 13.10.2005 (FN).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A-12021/4/2005-Estt.II.—The President is pleased to appoint Smt. Manju as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre in this Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 28.10.2005 (AN).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A-32013/1/95-Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri. C. H. Ramachandran as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre in this Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 13.10.2005 (FN).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

National Informatics Centre

New Delhi-110003, the 30th September 2005

No. NIC/PF/84/2005-P&E-I.—Shri. Om Prakash Goel, Scientist 'E' (Emp Code No. 84), National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government Service w.e.f. 30/09/2005 (AN) and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (P&E).

STANDARDISATION TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 31st October 2005

No.2(2)/2004-PA(TA).—The Director General (STQC) is pleased to appoint Shri Dinesh R. Rami, Assistant, Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Pune as Administrative Officer Grade-II in Electronics Test & Development Centre, Bangalore a subordinate office under the STQC Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on deputation basis, with effect from the forenoon of 02.05.2005, initially for a period of two years.

SATVIR SINGH, Deputy Director.

No. 2(2)/2004-PA(TA).—The Director General (STQC) is pleased to appoint Shri U. S. Antil, Section Officer (Accounts), Electronics Research Development & Facilities Centre, Ambala Cantt.(A project of Haryana State Electronics Development Corporation Limited, Chandigarh) as Administrative Officer Grade-II in Electronics Test & Development Centre, Goa a Subordinate office under the STQC Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology, in the scale

of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on deputation basis, with effect from the forenoon of 12.05.2005, initially for a period of two years.

SATVIR SINGH, Deputy Director

The 7th November 2005

No. 2(3)/2003-PA(TA).—The President is pleased to appoint the following Administrative Officers Grade-II posted at ERTL (W), Mumbai and ETDC, Guwahati respectively, subordinate Offices under STQC Directorate as Administrative Officer Grade-I in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 04-10-2005:-

1. Shri A.B. Mulatkar
2. Shri Gautam Biswas.

They will be on probation for a period of two years from the date of their appointment as Administrative Officer Grade-I, i.e. 04-10-2005.

SATVIR SINGH, Deputy Director.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 27th October 2005

No. 3-3/2005-Admn.—Consequent upon his inclusion in the Select List of Grade 'A&B' (merged) of CSSS for the Select List Year, 2003, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Singh, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS of this Department, as Private Secretary of CSSS in the cadre of Department of Posts on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 24.10.2005 (F/N) and until further orders.

G. P. PILLAI, Assistant Director General (Admn.)

The 28th October 2005

No. 39-1/94-Admn.—The President is pleased to revert Smt. Anita Kumari, Private Secretary (ad-hoc) to her substantive post of Stenographer Grade 'C' of CSSS in the scale of pay of Rs. 5,500-175-9,000/- with effect from the forenoon of 24.10.2005.

G. P. PILLAI, Assistant Director General (ADMN).

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th November 2005

No.E(GP)99/1/54.—The President is pleased to approve of Shri Satram Singh, a Group 'B' officer of Electrical

Engineering Department of Western Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/ Junior Scale of the Indian Railway Service of Electrical Engineers, in the panel for 1998-99 with effect from 28.07.2000 on that Railway.

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board.

The 11th November 2005

No. E(GP)2001/1/49.—The President is pleased to approve of Shri R. V. Singh, a Group 'B' officer of Civil Engineering Department of Central Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 14th January, 2005 on that Railway, against the panel for the year 2002-2003.

2. Shri R. V. Singh would, however, be entitled to monetary benefit in Junior Scale w.e.f. 01.09.2005 only.

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 28th October 2005

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Anil Kumar Pruthi, Chief Draftsman (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- beyond 20.10.2005 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Department's Office Order No. 134/2004 dated 21.10.2004 (A-12026/4/2001-Estt.).

S. K. SHAHI, Under Secy.

The 3rd November 2005

No. A-12028/3/04-Estt.—The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Sh. Susheel Kumar, IAS (UP: 82), Joint Secretary, in the Department of Shipping w.e.f. 07.11.2005 to 06.02.2006, or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. SHAHI, Under Secy.

The 9th November 2005

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri J. C. Talwar, Chief Draftsman (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- beyond 12.11.2005 for a period of six months or until further orders,

whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Ministry Office Order No. 137/2003 dated 13.11.2003 (A-12026/4/2001-Estt.)

S. K. SHAHI, Under Secy.

New Delhi, the 7th November 2005

No. A-12026/1/2003-MA.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Sahni, (IAS MP-71) Director General of Shipping & ex-officio Additional Secretary as Director General of Shipping in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 4th October, 2005 (FN) until further orders.

NANAK CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th October 2005

No. 10/2005 F. No. 20/31/2005-Admn.—In pursuance of Section-19(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), Smt. Sushama Singh, Additional Secretary (WR) is designated as the Appellate Authority in the Main Secretariat of the Ministry of Water Resources.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2005

No. 12/2005 F. No. 20/31/2005-Admn.—In pursuance of Section-5(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following officers are designated as Central Public Information Officers in various wings in the Main Secretariat of the Ministry of Water Resources as enumerated below:—

S.No.	Name & Designation	Name of the Wing
1	2	3
	S/Shri	
1.	H.S. Nehra, Director (PP)	Policy and Planning (PP)
2.	Kamlesh Shukla, Director (HP)	Brahmaputra and Barak (B&B)
3.	S.S. Ohri, Deputy Secretary (Ganga)	Ganga
4.	Inderjit Singh, Deputy Secretary (CADWM)	Command Area Development and Water Managements (CADWM)
5.	P.K. Berwah, Controller of Accounts	Finance

1	2	3
6.	K. Vohra, Senior Joint Commissioner (BM)	Projects (PR) - BM Division
7.	Ramesh Kumar, Director (GW)	Ground Water (GW)
8.	Vijay Kumar, Director (I)	Indus (I)
9.	P. Padmanabhan, Senior Joint Commissioner (PR)	Projects (PR)-Projects Division

This issues in supersession of this Ministry's earlier Notification No. 8/2005 F.No. 20/31/2005-Admn. dated 27.9.2005.

SAT PAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st October 2005

No. 1/51/2004- MUC.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Upadhyay, Assistant Production Manager (Outdoor Publicity) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP), in the post of Production Manager (Outdoor Publicity) (Group A, Gazetted, Non-Ministerial) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 9.9.2005.

2. He will be on probation for a period of two years w.e.f. 9.9.2005, the date he has taken over the charge of the post. The period of probation is extendable at the discretion of the Competent Authority.

S. V. KRISHNAN, Under Secy.

No. 1/83/2004-MUC.—The President is pleased to promote Shri B. P. Meena, Assistant Media Executive in the Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP), to the post of Media Executive (Group A, Gazetted, Non-Ministerial) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 13.09.2005 for a period of one year or until a regular incumbent joins, whichever is earlier.

S. V. KRISHNAN, Under Secy.